



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 212] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 6, 1978/कार्तिक 15, 1900
No. 212] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 6, 1978/KARTIKA 15, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना संख्या-80 आई० टी० सी० (पीएन)/78

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1978

विषय:—अप्रैल 1978 मार्च 1879 की अवधि में वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) द्वारा स्वचालित लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि।

संख्या 6/215/78-ईपीसी से जारी वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना संख्या-22 आई.टी.सी. (पीएन)/78, दिनांक 3 अप्रैल, 1978 में प्रकाशित आयात-नीति, 1978-79 के अध्याय-21 के पैरा-206 (ख) की ओर ध्यान दिलाया जाता है, इसके अनुसार जनवरी 1978

मार्च, 1979 की तिमाही के दौरान किए गए निर्यात के मुद्दों पंजीकृत निर्यातकों द्वारा भार. ई.पी. आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर, 1978 थी।

2. प्राप्त प्रतिवेदनों के आतार पर यह निश्चय किया गया है कि उक्त अन्तिम तिथि बढ़ा कर 18 नवम्बर, 1978 तक कर दी जाए।

हस्ताक्षरित

का० वें० शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

(यू० एस० रावल)

उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 80-ITC(PN)/78

New Delhi, the 6th November, 1978

Subject : Last date for filing applications for automatic licences by Actual Users (Industrial) during April 1978—March 1979.

No. 6/215/78-EPC.—Attention is invited to para 206(b) in Chapter 21 of Import Policy, 1978-79 published under the Department of Commerce Public Notice No. 22-ITC(PN)/78 dated the 3rd April, 1978, according to which the last date for submission of REP applications by Registered Exporters against exports made during January 1978—March 1978 quarter was 30th September, 1978.

2. On the basis of representations received, it has been decided to extend the said last date upto 18th November, 1978.

Sd/-

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports

U. S. RAWAL, Dy. Chief Controller of Imports and Exports

for Chief Controller of Imports and Exports